

वधि प्रवर्तन में सांस्कृतिक संवेदनशीलता

हाल ही की एक घटना से संबंधित वीडियो में एक पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा सड़क के किनारे पूजा-अर्चना कर रहे लोगों को जबरदस्ती परेशान करते हुए देखा गया था। इसमें संबंधित अधिकारी को सड़क पर यातायात को सुचारू बनाने के क्रम में लोगों को लात मारते हुए देखा गया था।

इस घटना के बाद लोग नजदीकी पुलिस स्टेशन के आसपास एकत्रित हो गए तथा वरिध में सड़क को भी जाम कर दिया। इन लोगों ने तर्क रखा कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों के ऐसे कृत्य बेहद चिंताजनक हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर इस तरह से पूजा-अर्चना को बाधित करने से संबंधित पूर्व में कोई मामला सामने नहीं आया है तथा मंदिर में जगह की कमी के कारण लोगों को सड़क पर प्रार्थना करने के लिये मजबूर होना पड़ता है।

इस दुर्व्यवहार की प्रतिक्रिया में उप-निरीक्षक को तुरंत ही निलंबित कर दिया गया तथा घटना की जाँच शुरू कर दी गई।

इस तरह के मामले नसिंसंदेह पुलिस और लोगों के बीच विश्वास को कम करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी घटनाएँ दोबारा न हों, पुलिस अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देना आवश्यक है।

उपर्युक्त परदृश्य में वधि प्रवर्तन गतिविधियों के दौरान नैतिक मानकों को बनाए रखने तथा सांस्कृतिक संवेदनशीलता का सम्मान करने के महत्त्व को समझने के क्रम में आप पुलिस अधिकारियों हेतु कसि प्रकार के प्रशिक्षण का सुझाव देंगे?